REGISTERED No.DL-(N) 04/0007/2003-20

रजिस्ट्री सं.डीएल-(एन) 04/0007/2003-20



सी.जी.-डी.एल.-सा.-02012021-224111 CG-DL-W-02012021-224111

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

# PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1]नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 2—जनवरी 8, 2021 (पौष 12, 1942)No. 1]NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 2—JANUARY 8, 2021 (PAUSA 12, 1942)

इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 4

## [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं

सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

> श्रम और रोजगार मंत्रालय (कर्मचारी राज्य बीमा निगम)

नई दिल्ली, दिनांक 23 नवम्बर 2020

सं. ए-12/11/20/आयुश-भ.वि./2018-चि.-VI—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (xx) और उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा अधिकारी (होमियोपैथी) भर्ती विनियम, 2009 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जोगे से छूट गई बातों के अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एतदद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में चिकित्सा अधिकारी (होमियोपैथी) और वरिष्ठ किकित्सा अधिकारी (होमियोपैथी) पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:—

 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, चिकित्सा अधिकारी (होमियोपैथी) और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (होमियोपैथी), समूह 'क' पद, भर्ती विनियम, 2020 कहे जाएंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. अनुप्रयोज्यता - ये विनियम, इन विनियमों में संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू ह्येंगे।

### दिनांक 27 नवम्बर 2020

सं. ए-12/11/16/ड्रेसर-भ.वि.-/2017/चि.-VI—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (परा-चिकित्सा पद) भर्ती विनियम, 2010 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, जहां तक कि वे ड्रेसर पद से संबंध रखते हैं में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एतदद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में ड्रेसर के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ड्रेसर, भर्ती विनियम, 2020 कहे जाएंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. राष्ट्रीयता – अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए होना चाहिए :—

(क) भारत का नागरिक; अथवा

(ख) वह व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों से संबंध रखता/ रखती हो जो इस संबंध में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई हो।

- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल, इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 5. शारीरिक स्वस्थता :—

(1) अभ्यर्थी का अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य हो तथा वह किसी भी ऐसे शारीरिक विकार से मुक्त हो जिससे सेवा में एक अधिकारी/ कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने की आशंका हो।

(2) अभ्यर्थी जो महानिदेशक द्वारा निर्धारित इस प्रकार की शारीरिक परीक्षा के पश्चात इस विनियम के खंड (1) की आवश्यकता को संतोषजनक रूप से पूर्ण करता नहीं पाया जाता है, तो नियुक्त नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी : शारीरिक स्वस्थता तथा अभ्यर्थी की परीक्षा कर उसे नियुक्ति हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ घोषित करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों हेतु मानदंड केंद्रीय सरकार के अधीन तदनुरूपी नियुक्ति के समान ही होगा।

- 6. निरर्हता— ऐसा कोई व्यक्ति—
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है, जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा
  - (ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वे किसी व्यक्ति पर इन विनियमों के प्रचालन से छूट दे सकेंगे।

- 7. शिथिलता प्रदत्त करने की शक्ति— जहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके तथा अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पूर्व विशिष्ट अनुमोदन के पश्चात् किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा शिथिलता दे सकते हैं।
- व्यावृत्ति— इन विनियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरुप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रदान करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधे भर्ती होने वालों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ड्रेसर	287*(2020) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यधीन ।	समूह 'ग', गैर-अनुसचिवीय	लेवल-3 (21,700- 69,100 रुपये)	गैर चयन-	18 से 25 वर्ष के मध्य (केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए वर्ग 'ग' पदों के लिए सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु 40 वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप खंड, लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)।

सीधे भर्ती होने वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती होने वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हता पदोन्नति वालों के मामलों में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की विधि, क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा है और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य अर्हता : 1.मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं उत्तीर्ण; 2.किसी मान्यता प्राप्त या पंजीकृत अस्पताल या परिचर्या गृह (नर्सिंग होम) में घावों की मरहम-पट्टी का तीन वर्ष का अनुभव।	आयु- नहीं शैक्षिक अर्हता – हाँ	सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष	100% पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा
टिप्पणी 1 : अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में अर्हता सक्षम अधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है। टिप्पणी 2 : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में यदि चयन के किसी भी चरण पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय होती है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने की आशंका है तो अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिलनीय है।			

अनुसूची

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(11)	(12)	(13)
पदोन्नति: 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ विभागीय नर्सिंग अर्दली तथा वेतन मैट्रिक्स के लेवल-1 में (18,000- 56,900) में छ: वर्ष की नियमित सेवा जिसमें से 3 वर्ष का घावों की मरहम-पट्टी का अनुभव अनिवार्य है। टिप्पणी 1 : ड्रेसर के पद पर पदोन्नति के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रशिक्षण संस्थान अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णीत संस्था से पद की ड्यूटियों तथा कौशल विकास आदि क्षेत्र में अभ्यर्थी का प्रशिक्षण पूरा होना चाहिए। जिन व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति दो वर्ष के भीतर होनी नियत है, उन्हें ऐसे प्रशिक्षण के पूर्ण करने से छूट प्राप्त होगी। बशर्ते विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि से पूर्व पदोन्नति हेतु जिन व्यक्तियों ने प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया, उन पर भी इस शर्ताधीन विचार किया जाएगा कि विभागीय पदोन्नति समिति बैठक की तिथि के एक वर्ष के भीतर अपेक्षित प्रशिक्षण पूरा कर लिया जाएगा। टिप्पणी 2 : जहां पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बर्शते अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) का गठन :- (1) अपर निदेशक, निदेशालय(चिकित्सा) अथवा चिकित्सा अधीक्षक अथवा उप चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल —अध्यक्ष; (2) निदेशक अथवा संटायक निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल —सदस्य; (3) चिकित्सा अधिकारी से संबंधित विशेषज्ञता अधिमानत: (केंद्रीय अथवा राज्य सरकार से बाह्य नामिति) —सदस्य. समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) का गठन :- (1) अपर निदेशक, निदेशालय(चिकित्सा) अथवा चिकित्सा अधीक्षक अथवा उप चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल —अध्यक्ष; (2) निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक अथवा उप निदेशक अथवा सहायक निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल —सदस्य; (3) चिकित्सा अधिकारी से संबंधित विशेषज्ञता अधिमानत: (केंद्रीय अथवा राज्य सरकार से बाह्य नामिति) —सदस्य;	लागू नहीं

अनुराधा प्रसाद महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 1 दिसम्बर 2020

सं. ए-12/11/21/भेषज्ञ(आयुष)-भ.वि./2018-चि.-VI कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप-धारा (2क) के सम्भ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (पराचिकित्सा पद) भर्ती विनियम, 2010 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए-जाने से छूट गई बातों के अलावा, जहां तक कि वे भेषजज्ञ (आयुर्वेद) पद से संबंध रखते हैं में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एतदद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में भेषजज्ञ (आयुर्वेद) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:—

	Officer (Homeopa				allowance		
	Medical Officer				admissible as per		
	are 14 and these				Central		
	operated within the				Government orders		
	combined sanction	ed strength.			amended from		
	$\longrightarrow$				time to time.		
(7)	(8)	(9)			(10)		
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promot	tion on	selection basis without	t linkage to th	e vacancy
Not applicable	Not applicable		by promot		selection basis without	t linkage to th	ie vacane y
	(11)	$\overline{}$			(12)		(13)
Promotion from N	Aedical Officer (Ho	meonathy) with f	our* years	Grout	o 'A' Departmental	Promotion	Not
	n level-10 (Rs. 50				nittee (for considering		applicable.
matrix.					sting of: -		**
	notion to the post				edical Commissioner,		
	e candidate should			State	Insurance Corporation		
	uties of the post					-Chairman;	
	g Institute of Er			Q. I	Deputy Medical Co		
	an institute decid			(India	in System of	Medicine),	
	no are due to retire empletion of such the			Empl		Insurance	
	e not completed tra			Corpo	oration		
	ig of Departmental						
	subject to conditi				nistration) or Directo		
	d within one year				nistration), Employ		
Departmental Pro	motion Committee.		-		ance Corporation	ees State	
	miors who have co			mourt		-Member.	
eligibility service are being considered for promotion, their							
seniors would also be considered provided they are not short of						$\mathbf{X}$	
the requisite qualifying or eligibility service by more than half of							
such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for						$\setminus$	
promotion to the next higher grade along with their juniors who						$\setminus$	
have already completed such qualifying or eligibility service.						$\setminus$	
*Note 3: Extra Ordinary Leave availed for reasons other than on							
	Medical Certificate and for Study purpose shall be excluded from						
the qualifying service.							
<u>, , c</u>							HA BRASAD

ANURADHA PRASAD Director General

### The 27th November 2020

No. A-12/11/16/Dresser-RR/2017-Med.-VI—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97, read with clause (xxi) of sub section (2) and sub section (2A) of the said section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees State Insurance Corporation (Paramedical post), Recruitment Regulations, 2010 in so far as they relate to the post of Dresser, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the post of Dresser in Employees' State Insurance Corporation, namely:-

- 1. Short title and commencement. (1) These Regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation, Dresser, Recruitment Regulations, 2020.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Nationality. A candidate for appointment must be: -
  - (a) a Citizen of India; or

PART III—SEC. 4]

(b) he/she must belong to such categories of persons as may from time to time, be notified in this behalf by the Government of India in the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.

- 3. Number of post, classification and level in the pay matrix. The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.
- 4. Method of recruitment, age -limit, other qualifications, etc.-The method of recruitment, age -limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 5. Physical fitness. (1) A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer/employee in the service.

(2) A candidate who after such physical examination as the Director General may prescribe is found not to satisfy the requirement of clause (1) of this regulation will not be appointed.

Note: The standard of physical fitness and the competent medical authorities to examine and declare a candidate physically fit for appointment, will be same as for corresponding appointment under the Central Government.

- 6. Disqualification. No person,-
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

- 7. Power to relax.-Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so do to, he may, by order, for reasons to be recorded in writing, and with the prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
- 8. Savings.- Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay matrix	Whether selection post or non- selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dresser	287* (2020) *Subject to variation dependent on workload	Group 'C', Non- Ministerial	Level-3 (₹ 21,700- 69,100)	Non- Selection	Between 18 and 25 years. (Relaxable for employees of Employees' State Insurance Corporation upto 40 years for appointment by direct recruitment to Group 'C' posts in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union Territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)
Education	al and other	r Whether age	Period o	f Method of	In case of recruitment by promotion or

#### SCHEDULE

Educational and other qualifications required for	0	Period of probation,	Method of recruitment	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from
direct recruits	educational qualifications prescribed for	if any	recruitment or by promotion or by	which promotion or deputation or absorption to be made
	direct recruits		deputation or	

will apply in the case of promoteeswill apply in the case of promoteesabsorption and percentage of vacancies to be filled by various methods(7)(8)(9)(10)(11)Escential Qualification recognised Board or University; 2. Three years' experience of dressing of wounds in a recognized or registered Home.Two years for firset are service in Level-1 in Pay Matrix (Rs. 18,000 - 56,900) out of which the eyaars experience of dressing of wounds is madatory. Note 1 Qualifications are relaxable at the discretion of the completent authority in case of candidates otherwise well qualified.Note 2 The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the completent authority in to the case of candidates dress of the completent authority in to the case of candidates dress if any stage of selection the completed training. Forvided Tribes if at any stage of selection the completed training for promotion completed training for promotion completed training for promotion completed training for promotion completed ther qualified training in the required training in the requires experience are readidates from these communities possessing the requisite experience are on thickly to be available to fill up the vacancy reserved for therm.Note 2 Where juniors who have not completed with in one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee. Note 2. Where juniors who have not completed with in one year of the date of meeting of be partmental Promotion Committee. Note 2. Where juniors who have not completed with in one year of the date of meeting of be partmental Promotion Committee. Note 2. Where juniors who have nor the required training wi					
promoteesvacanciesvacanciesto(7)(8)(9)(10)(11)Essential Qualification: recognised Board or University; 2. Three years' experience of dressing of wounds in a recognized or registered Home.Age-No Educational Qualification are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidatesMatrix Age-No Educational completed the discretion of the competent authority in the ace of candidatesNote 1 Portune the discretion of the competent authority in the ace of candidatesNote 1 Portune the discretion of the competent authority in the ace of candidatesNote 1 Portune the discretion of the competent authority in the case of candidatesNote 1 Portune the discretion of the competent authority in the case of candidatesNote 1 Portune the discretion of the competent authority in the case of candidatesNote 1 Portune the discretion of the competent authority in the case of candidatesNote 1 Portune the discretion of the competent authority in the case of candidatesNote 1 Portune the discretion of the competent authority in the case of candidatesNote 1 Portune the discretion of the competent authority in the case of candidatesNote 1 Portune the discretion of the competent authority in the considered subject to condition that the required training will be belonging to Scheduled Tribes if at any stage of selection the served for the case of candidates from these communities possessing the requisite experience are not hikely to the option the case of scheduled training on the partmental Promotion Committee.Note 2 When the purpossing of the dat		11.2		*	
(7)(8)(9)(10)(11)Essential Qualification: 1. 12th class pass from a recognised Board or University; 2. Three years' experience of dressing of wounds in a recognized or registered Hospital or Nursing Home.Age-No Educational restrict or ves.Two years for direct recruitment.PROMOTION: The departmental Nursing Orderly with three years experience of dressing of wounds in a recognized or registered Hospital or Nursing Hospital or Nursing Hospital or Nursing in case of candidates otherwise well qualifications regarding experience are class pass regular solution of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualifications regarding experience are classing of Scheduled Cases or Scheduled Traise from these case of candidates belonging to Scheduled cases of candidates for the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled cases or Scheduled case or Scheduled from the selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.Note 2: Where juniors who have not condicates from these are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.Note 2: Where juniors wh				1 0	
(7)(8)(9)(10)(11)Essential QualificationAge-NoTwo years for direct recruitment.PROMOTION:1. 12th class pass from a recognised Board or Of dressing of wounds in a recognized or registered Hospital or Nursing Home.Age-NoTwo years for direct recruitment.PROMOTION: The departmental Nursing Orderly with 12th class pass and six years regular service in Level-1 in Pay Matrix (Rs. 18,000 - 56,900) out of which how onds is mandatory. Note 1 For promotion to the post of Dresser, the candidate should have completed the training in the field of temployees' State Insurance Corporation or at an institute decided by Competent Authority. Those persons who are due to retire within two gers shall be exempted from completion of such training. Provided that those persons who have not completed training of promotion conditates of scheduled Castes or Scheduled Castes or Scheduled Castes or Scheduled traine spreine candidates from these completed training or perion Committee. Note 2 Where juniors who have not conditates of the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to the eavailable to fill up the vacancy reserved for them.Note 1 Requalify or eligibility service are being considered for promotion to the next higher grade along their probation or their seniors would also be considered provided their probation for such and have not sensitive their promotion to the next higher grade along with their juniors who have successfully completed with provided heir probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have successfully complete		promotees			
(7)(8)(9)(10)(11)Essential Qualification: 1. 12th class pass from a recognised Board or University; 2. Three years' experience of dressing of wounds in a recognized or registered Hospital or Nursing Hospital or Scheduled of the completent authority in case of candidates other works well qualified.100% the promotion failing the field of the candidates otherwise well qualified.100% the promotion to the post of the candidates to the regarding experience are relaxable at the discretion of the completent authority in case of candidates belonging to Scheduled Traineg of scheduled Traineg of scheduled Traineg to the completent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience a multicip the reguisite experience authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience authority is of the opinion that sufficient number of candidates to fill up the vacancy reserved for hem.(8)(9)(10)(11)Two years for them.(8)(9)(10)(10)(11)(11)The experience authority is of the opinion that all help of the opinion that all help of vacancy reserved for hem.(8)(10)(11)The experience considered provided the fill up the vacancy reserved for hem.(8)(10)(11)(11)The experience average considered provided they are not short vacancy reserved for h				2	
Essential Qualification: 1. 12th class pass from a recognised Board or University; 2. Three years' experience of dressing of wounds in a recognized or registered Hospital or Nursing Home. Note 1 Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates belonging to Scheduled Tribes if at any stage of sclection the competent authority is of the opinion chast sufficient number of available to fill up the vacancy reserved for them. Essential Qualification is allow and the required relating of Departmental PROMOTION: The departmental Nursing Orderly with 12th class pass and six years regular recruitment. The gears regular recruitment. The gears regular the sclection the competent authority is of the opinion that sufficient number of available to fill up the vacancy reserved for them. The gears regular them. The sclection the competent authority to be available to fill up the vacancy reserved for them. The sclection to the completent authority is of the opinion them. The sclection the completent of them. The sclection the completent of them the sclection the completent of them the sclection the completent of the opinion the sclection the completent of them. The sclection the completent of them the sclection the completent of them the sclection the completent of them. The sclection the completent of them the sclection the completent of the sclection the sclection the sclection the sclection the sclection the sclection the sclect				methods	
1. Lith class pass from a recognised Board or University; 2. Three years' experience of dressing of wounds in a recognized or registered Hospital or Nursing Home.direct irecuitment.promotion failing which by direct recruitment.The departmental Nursing Orderly with 12th class pass and six years regular service in Level-1 in Pay Matrix (Rs. 18,000 - 56,900) out of which three years experience of dressing of wounds is mandatory.Note1 Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates belonging to Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.promotion failing which by divert recruitment.The departmental Nursing Orderly with 12th class pass and six years regular service in Level-1 in Pay Matrix (Rs. 18,000 - 56,900) out of which three years experience of dressing of wounds is mandatory. Note 1For promotion to the post of Dresser, the candidates belonging to Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.promotion failing the requisite experience of the requisite qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service by more than half of such <td></td> <td></td> <td></td> <td>(10)</td> <td>(11)</td>				(10)	(11)
recognised Board or University; 2. Three years' experience of dressing of wounds in a recognized or registered Hospital or Nursing Home. Note 1 Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2 The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2 The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates deferming the field of duties and skill development, etc. through Training Institute of the competent authority in the case of candidates deferming the field of duties and skill development, etc. through Training Institute of the competent authority in the case of candidates deferming the field of more persons who have not completion of such training. Provided that those persons who have not completed runing of promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee. Note 2: Where juniors who have completed within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee. Note 2: Where juniors who have completed within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee. Note 2: Where juniors who have completed within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee. Note 2: Where juniors who have considered for promotion the they are not short of the requisite experience are not likely to be available to fill up the available to fill up the availa	Essential Qualification:	Age-No	Two years for		PROMOTION:
University; 2. Three years' experience of dressing of wounds in a recognized or registered Hospital or Nursing HomeYes.recruitment.service in Level-1 in Pay Matrix (Rs. 18,000 – 56,900) out of which three years experience of dressing of wounds is mandatory. Note 1For promotion to the post of Dresser, the candidate should have completed the training in the field of duties and skill development, etc. through Training Institute of Employees' State Insurance corporation or at an institute decided by Competent Authority. Those persons who are due to retire within two years shall be exempted from completion of such training. Provided that these persons who have not completion of such training. Provided that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.Service in Level-1 in Pay Matrix (Rs. 18,000 – 56,900) out of which weight any stage of selection the competent authorityUniversity:-YesYes.Note 2.Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the completent authorityNote 2.Note 2: The qualifications regarding to Scheduled Castes or Scheduled Castes or Scheduled trains will be completed within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee. Note 2: Where juniors who have completed within one year of the date of meeting of Dispatched willy ing or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	1. 12th class pass from a	Educational	direct		The departmental Nursing Orderly with
<ul> <li>2. Three years' experience of dressing of wounds in a recognized or registered Hospital or Nursing Home.</li> <li>Note 1 Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualifications are regarding experience are of candidates otherwise well qualifications are regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualifications are regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualifications are regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates of the competent authority in the case of candidates are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates are relaxable at the discretion of the competent authority is of the opinion that use of candidates from these communities possessing the requisite experience are are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</li> </ul>		Qualification	recruitment.	which by direct	12th class pass and six years regular
of dressing of wounds in a recognized or registered Hospital or Nursing Hospital or Nursing Home. Note 1 Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority. Those by Competent Authority. Those persons who are due to retire within two years shall be exempted from completed that institute decided that those persons who have not completed training for promotion in the case of candidates of Scheduled Castes or Scheduled that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	University;	-Yes.		recruitment.	
recognized or registered Hospital or Nursing Home. Note 1 Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2 The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2 The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of ccandidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	2. Three years' experience				
HospitalOrNursing Home.Note 1 Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified.Note 1For promotion to the post of Dresser, the candidate should have completed the training in the field of duties and skill development, etc. through Training Institute of Employees' State Insurance Corporation or at an institute decided by Competent Authority. Those persons who are due to retire within two years shall be exempted from completion of such training. Provided that hose persons who have not completed training of promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee.Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.Note 1For promotion to the post of upantities.Note 1For promotion to the post of memotion to the post of them.Homes completed the training in the post of candidates from these communities possessing them.Homes vacancy reserved for them.Homes vacancy reserved	of dressing of wounds in a				
Home. Note 1 Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these completed their qualifying or eligibility service are being considered for the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. Home, Scheduled to fill up the vacancy reserved for them.					
Note 1 Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority. Those persons who are due to retire within two years shall be exempted from completion of such training. Provided that those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee shall also be considered subject to condition that the required training will be completed subject to condition that the required training will be completed within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are on short vacancy reserved for them.	Hospital or Nursing				
Note1 Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified.duties and skill development, etc. through Training Institute of Employees' State Insurance Corporation or at an institute decided by Competent Authority. Those persons who are due to retire within two years shall be exempted from completed training. Provided that those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee shall also be considered subject to condition that the required training will be completed within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short vacancy reserved for them.	Home.				
relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Castes or Scheduled that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.					
of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Castes or Scheduled Castes or Scheduled Castes from these completed the option that sufficient number of candidates from these commutites possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.					1 /
Corporation or at an institute decided by Competent Authority. Those persons who are due to retire within two years shall be exempted from completion of such training. Provided that those persons who have not completent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	relaxable at the discretion				0
by Competent Authority. Those persons who are due to retire within two years shall be exempted from completion of such training. Provided that those persons who have not completion of such training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee shall also be considered subject to condition that the required training will be completed within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee. Note 2: Where juniors who have communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	of the competent authority				1 2
Note 2 The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	in case of candidates				*
Note 2 The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	otherwise well qualified.				
regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.					
that those persons who have not completed the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.					
completed training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee shall also be considered subject to condition that the required training will be completed within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee. Note 2: Where juniors who have communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	regarding experience are				
before the date of meeting of Departmental Promotion Committee shall also be considered subject to condition that the required training will be completed within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee. Note 2: Where juniors who have communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.					*
Departmental Promotion Committee shall also be considered subject to condition that the required training will be completed within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee. Note 2: Where juniors who have communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.					
Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.					
Cardidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. Cardidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. Cardidates for the seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or	00				
selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.					
date of meeting of Departmental Promotion Committee. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or					
that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.					
candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	5 1				
communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.					Note 2: Where juniors who have
the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.					
are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	1 0				
available to fill up the vacancy reserved for them.					
of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or					considered provided they are not short
them. service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or					
qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or					service by more than half of such
successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or					
period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or					
grade along with their juniors who have already completed such qualifying or					
already completed such qualifying or					
eligibility service.					
					eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of- 1. Additional Director, Directorate (Medical) or Medical Superintendent or Deputy Medical Superintendent, Employees' State Insurance Corporation Hospital	Not applicable.
-Chairman;	
2. Director or Joint Director or Deputy Director or Assistant Director, Employees' State Insurance Corporation Hospital	
-Member;	

3. Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee	
from Central Government or State Government)	
-Member.	
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of-	
1. Additional Director, Directorate (Medical) or Medical Superintendent or	
Deputy Medical Superintendent, Employees' State Insurance Corporation	
Hospital	
-Chairman;	
2. Director or Joint Director or Deputy Director or Assistant Director,	
Employees' State Insurance Corporation Hospital	
-Member;	
3. Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee	
from Central Government or State Government)	
-Member.	

ANURADHA PRASAD Director General

#### The 1st December 2020

No. A-12/11/21/Pharm(Ayush)-RR/2018-Med.-VI—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97, read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of the said section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees State Insurance Corporation (Para Medical post), Recruitment Regulations, 2010, in so far as they relate to the post of Pharmacist (Ayurvedic), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the post of Pharmacist (Ayurvedic) in Employees' State Insurance Corporation, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These Regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation, Pharmacist (Ayurveda), Recruitment Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Nationality. - A candidate for appointment must be: -

(a) a Citizen of India; or

(b) he/she must belong to such categories of persons as may from time to time, be notified in this behalf by the Government of India in the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.

- 3. Number of post, classification and level in the pay matrix. The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.
- 4. Method of recruitment, age -limit, other qualifications, etc.- The method of recruitment, age -limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 5. Physical fitness. (1) A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer/employee in the service.

(2) A candidate who after such physical examination as the Director General may prescribe is found not to satisfy the requirement of clause (1) of this regulation will not be appointed.

Note: The standard of physical fitness and the competent medical authorities to examine and declare a candidate physically fit for appointment, will be same as for corresponding appointment under the Central Government.

- 6. Disqualification. No person,-
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spous viving, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

7. Power to relax.-Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so do to, he may, by order, for reasons to be recorded in writing, and with the prior approval of the